

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1—सितम्बर 7, 2018 (भाद्र 10, 1940)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1—SEPTEMBER 7, 2018 (BHADRA 10, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

सं. ए.22012/1/2018-पीएमई (पार्ट-2).—राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री कार्यालय में श्री वी. शेषाद्री, आईएएस (टीजी: 1999), संयुक्त सचिव की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि 21.08.2018 के उपरांत आगे दो वर्ष के लिए बढ़ाते हैं।

सुरजीत दत्ता

अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2018

सं.आरएस.46/2/2018/94-कार्मिक.—राज्य सभा टेलीविजन में पुनर्नियोजन के आधार पर निदेशक (वित्त एवं लेखा) के रूप में डा. पी. कल्याणसुन्दरम की नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त होने पर 08.08.2018 (पूर्वाह्न) से उनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं।

अमित कुमार

उप सचिव

गृह मंत्रालय

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2018

क्रम सं. 47-8/2010-डीएम-III वॉल्यूम-III- राष्ट्रपति, सुश्री गीतांजलि को गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटीगेशन प्रोजेक्ट (एनसीआरएमपी) के परियोजना प्रबंधन यूनिट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 27.06.2018 (अपराह्न) से 31 मार्च, 2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, लेवल 11 में पे मेट्रिक्स में (7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार) प्रतिनियुक्ति आधार पर परियोजना प्रबंधक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र ठाकुर

अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2018

सं. 44011/14(एस)/2015-स्था.(ख-II)(भाग-II).— श्री अंशुमान दास, सदस्य, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने दिनांक 25.07.2017 को अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया था। सक्षम प्राधिकारी ने पिछली बार श्री अंशुमान दास को सौंपे गए अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) के पद के अतिरिक्त प्रभार को दिनांक 30.06.2018 अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया था। सक्षम प्राधिकारी ने अब श्री अंशुमान दास सदस्य, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) को सौंपे गए अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) के पद के अतिरिक्त प्रभार को दिनांक 18.08.2018 अर्थात् उनके सदस्य, पीईएसबी के रूप में कार्यकाल पूरा करने की तिथि अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे

उप सचिव

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2018

सं. 13017/32/2018-अ.भा.से.-I.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्नाटक राज्य सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा **सुश्री आकृति सागर, आई.ए.एस. (कर्नाटक :2016)** का श्री सुधांशु, आई.पी.एस. (एजीएमयूटी:2016) से विवाह होने के आधार पर कर्नाटक संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग में स्थानांतरण करती हैं।

उदय भान सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2018

सं. 44011/14(एस)/2015-स्था(ख).—श्री अंशुमान दास, सदस्य, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) का कार्यकाल दिनांक 18.08.2018 को पूरा हो जाने के फलस्वरूप सक्षम प्राधिकारी ने सुश्री गौरी कुमार, सदस्य, लोक उद्यम चयन बोर्ड को दिनांक 19.08.2018 से 27.09.2018 तक अर्थात् वह तारीख तक जब सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगी अथवा अगले आदेशों, जो पहले हो, तक के लिए अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सुपुर्द करने को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

स्मिता सारंगी

उप सचिव

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

सं. 14013/05/2016-अ.भा.से.III.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	संवर्ग	स्थायीकरण की तिथि
1.	दिबेंदु सरकार	2003	24.04.2015
2.	नित्या सुंदर त्रिवेदी	2003	24.04.2015
3.	सुदीप घोष	2004	24.04.2015
4.	नारायण चंद्र सरकार	2005	25.06.2016
5.	सैय्यद सरवार इमाम	2005	03.02.2016
6.	अतोनु चटर्जी	2006	19.09.2017
7.	देबब्रत चटर्जी	2006	19.09.2017
8.	नर्बु वांगी भूटिया	2006	19.09.2017
9.	शोमित घोष	2007	19.09.2017
10.	देबासिस गुहाठाकुर्त	2007	19.09.2017
11.	अजय भट्टाचार्य	2007	19.09.2017
12.	दीपांकर सिन्हा	2007	19.09.2017
13.	देबाशीस दास	2007	19.09.2017
14.	प्रभुदत्त डी. प्रधान	2007	19.09.2017

ज्योत्स्ना गुप्त

अवर सचिव

सं. 14013/01/2018-अ.भा.से.।।।.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	संवर्ग	स्थायीकरण की तिथि
15.	श्री संजय दुबे	2008	16.03.2008
16.	डॉ. संजय सिन्हा	2008	09.03.2008

ज्योत्स्ना गुप्त

अवर सचिव

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

फा. सं. 24012/1/2018-अ.भा.से.-II.—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग के सदस्य श्री ओम प्रकाश चौधरी, आईएएस (सीजी : 2005) का भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से स्वीकार करते हैं। बीच की इस अवधि अर्थात् दिनांक 14.08.2018 से इस अधिसूचना जारी होने की तारीख तक की अवधि को 'अकार्य दिवस' माना जाएगा।

खुशबू गोयल चौधरी

उप सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2018

सं. 22/पीबी- I/2018.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री बी. ऐ. सैम पॉल जी (जन्म तिथि 16.07.1958) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 31 जुलाई 2018 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं

सुनीला कृष्णन

प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I अनुभाग)

सं. 23/पीबी- I/2018.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री अर्नेस्ट एलेग्जेंडर एडम्स (जन्म तिथि 16.07.1958) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 31 जुलाई 2018 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुनीला कृष्णन

प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I अनुभाग)

सं. 24/पीबी- I/2018.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, सुश्री अपर्णा कुंडू (जन्म तिथि 27.07.1958) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 31 जुलाई 2018 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

सुनीला कृष्णन

प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I अनुभाग)

सं. 25/पीबी - I/2018.—विदेश मंत्रालय को घोषणा करते हुए खेद है कि भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी, श्री अरुण कुमार सक्सेना (जन्म तिथि: 30.09.1958), का 23 जुलाई, 2018 को निधन हो गया। अतः श्री अरुण कुमार सक्सेना का नाम मंत्रालय की सूची से हटा दिया गया है।

सुनीला कृष्णन

प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I अनुभाग)

(पीबी-II अनुभाग)

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2018

सं० क्यू/पीबी-II/6616/27/2013.—सीसीएस (पेंशन) नियम 48-ए के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु श्री विपिन नरला, निजी सचिव के अनुरोध को स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् वे 03 अगस्त, 2018 अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जितेन्द्र कुमार सिंह

प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-II)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

सं. 24/2018

भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापनाएं

फा.सं. सी-50/30/2015-प्रशा.।।.—राष्ट्रपति 21 दिसम्बर, 2014 से प्रभावी भारतीय राजस्व सेवा(सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क) से श्री मोहित कुमार, आई. आर. एस.(सी. एंड. सी. ई.:2013) द्वारा प्रस्तुत तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

एस.ए. अंसारी

अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2018

सं.13/2018(ए-19011/31/2015-ई-1).—सुश्री सीता तेवतिया, आई.ए.एस (जीजे:81), सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2018 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगी।

जी.बी.उपाध्याय
निदेशक

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2018

सं. -14/2018 (ए - 19011/42/2015 - स्था -I).— राष्ट्रपति, डा. अनूप वधावन, आईएएस (यूके: 1985) को 1.8.2018 (पूर्वाह्न) से और अगला आदेश होने तक वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी.बी. उपाध्याय
निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

सं.ए-19011/01/2015-स्था.(भाग).—डॉ. गिरीश साहनी, महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर)-एवं-सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) अपनी तीन वर्ष की विस्तारित अवधि के पूर्ण होने के परिणामस्वरूप, महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् -एवं- सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पद के अपने कर्तव्य तथा जिम्मेदारियों का कार्यभार दिनांक 23-08-2018 (पूर्वाह्न) से छोड़ते हैं।

कुलदीप कुमार
अवर सचिव

सं. ए-19011/01/2018- स्था. I.— महामहिम राष्ट्रपति श्री आशुतोष शर्मा, सचिव, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग को 24-08-2018 के प्रभाव से, नियमित पदधारी की नियुक्ति तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर)-एवं-सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के पद का अतिरिक्त प्रभार सहर्ष सौंपते हैं।

कुलदीप कुमार
अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद

मुंबई, 16 अगस्त, 2018

सं. एईआरबी/प्रशा/1/77/2410.— राष्ट्रपति महोदय परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को अगले आदेश तक उनके नाम के सामने उल्लिखित पदोन्नति पर तथा वेतनमान में दिनांक 01/07/2018 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं :

सं	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का ग्रेड	वेतन मैट्रिक्स
1.	श्री उमेश एस अवस्थी, वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13
2.	श्री सुनिल शंकरराव पगार, वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13
3.	श्री निशांत कुमार संगम, वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13
4.	श्रीमती अनुराधा वंगला, वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13
5.	श्री राहुल पोरवाल, वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13
6.	श्री बी. के. सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13
7.	श्री विरेंद्र रविंद्रनाथ धोत्रे, वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13
8.	डॉ. एस पी लक्ष्मणन, वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13
9.	श्री अनुज कुमार देव, वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13
10.	श्री मिलिंद सहदेव मेस्त्री, वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13

श्रीमती शीला मोहन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
(परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र)
कोलकाता, 17 अगस्त, 2018

सं.बी.ई.सी.सी./पदोन्नति/2017/2229.—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी को इसी केन्द्र में सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में वैज्ञानिक अधिकारी (डी) के पद पर जुलाई 1, 2017 से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं :

क.सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन मैट्रिक्स का लेवल
1.	श्री हितेंद्र यादव	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	10

सी.बी.एस. शास्त्री
प्रशासनिक अधिकारी- III

(भारी पानी बोर्ड)

मुम्बई, 20 अगस्त, 2018

संदर्भ : भापाबो / भर्ती/4(12)/2018/4924.—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (के.का) / भारी पानी संयंत्र (बड़ोदा/हज़ीरा) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी / अभियंता ग्रेड 'जी', (वेतन मेट्रिक्स में लेवल 13-क) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय/संयंत्र में वैज्ञानिक अधिकारी / अभियंता ग्रेड 'एच' (वेतन मेट्रिक्स में लेवल 14) में नियुक्त करते हैं :

क्र.सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्री	प्रभाग / यूनिट	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	उदय प्रभाकर अवसरे	भापाबो (के.का)	01.07.2018
2.	दीपायन मजूमदार	भापाबो (के.का)	01.07.2018
3.	सोमसुन्दरम तिरुवल्लुवन	भापासं (बड़ोदा)	01.07.2018
4.	रंगासामी सुब्रमनीयम	भापासं (हज़ीरा)	09.07.2018

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

सैम्सन वर्गीस

मुख्य प्रशासन अधिकारी

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2018

सं.ए.19011/1/2018-प्रशा.—राष्ट्रपति, श्री अनंत कुमार सिंह, आईएएस (यूपी: 84) को 10.08.2018 के अपराह्न से भूमि संसाधन विभाग में सचिव नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार

अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2018

सं. ईआरबी-1/2016/2/64.—राष्ट्रपति जी, श्री एन. काशीनाथ, आईआरएसएसई, को 10.08.2018 के अपराह्न से, 80,000 रुपए(संशोधन पूर्व) के उच्च वेतनमान में महानिदेशक (सिगनल एवं दूरसंचार), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रंजनेश सहाय

सचिव, रेलवे बोर्ड

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2018

फा. सं. 01/05/2013-डीवीसी.—दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का XIV) के धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केंद्र सरकार श्रीमती अर्चना अग्रवाल, भा.प्र.से, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश के होने तक, दामोदर घाटी निगम के बोर्ड में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है।

अनूप सिंह बिष्ट

अवर सचिव

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2018

सं. ए-11018/2/2017-प्रशासन.— राष्ट्रपति, श्री कपिल चौधरी, आईओएफएस (2002) को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 01.08.2018 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुधीर कुमार सिन्हा

अवर सचिव

सं ए-11018/02/2015-प्रशासन.— राष्ट्रपति, श्री अनिल कुमार शर्मा, आईईएस (1999) को दिनांक 24.07.2018 के पूर्वाह्न से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुधीर कुमार सिन्हा

अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

सं. ए-31011/03/2016-सीएलएस-।(.) राष्ट्रपति जी, केन्द्रीय श्रम सेवा की वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उनकी नियमित पदोन्नति होने पर श्री एन. के. मंडल को 23 जुलाई, 2018 (पूर्वाह्न) से वेतन मेट्रिक्स (1,44,200-2,18,200/- रु.) के वेतन स्तर 14 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम कल्याण महानिदेशालय कार्यालय में उप-महानिदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

अजय मलिक

अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi, the 20th August, 2018

No. A. 22012/1/2018-PME (Pt.-2).—The President is pleased to extend the tenure of central deputation of Shri V. Sheshadri, IAS (TG: 1999), Joint Secretary in the Prime Minister's Office for a period of two years beyond 21.08.2018.

SURAJIT DUTTA
Under Secretary

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 8th August, 2018

No. RS. 46/2/2018/94-Perl.—On expiry of his term of appointment, the services of Dr. P. Kalyanasundaram as Director (Finance & Accounts) in Rajya Sabha Television on re-employment basis shall stand terminated w.e.f. 08.08.2018(A/N).

AMIT KUMAR
Dy. Secretary

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DISASTER MANAGEMENT DIVISION)

New Delhi, the 2nd August, 2018

SI. No. 47-8/2010-DM-III Vol-III.—The president is pleased to appoint Ms. Geetanjali, as Project Manager in the Project Management Unit of National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP), National Disaster Management Authority under Ministry of Home Affairs on deputation basis w. e. f. 27.06.2018 (AN) in the pay matrix in Level 11 (as per the 7th CPC) for a period upto 31st March, 2020 or till further order, whichever is earlier.

SURENDRA THAKUR
Under Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 4th July, 2018

No. 44011/14(s)/2015-Estt.(B-II)(Part-II).—Shri Ansuman Das, Member, Public Enterprises Selection Board (PESB), took over additional charge of the post of Chairperson, Public Enterprises Selection Board (PESB), with effect from 25.07.2017 (afternoon). The Competent Authority last conveyed approval for the extension of additional charge of the post of Chairperson, PESB entrusted to Shri Ansuman Das for the period upto 30.06.2018 or until further orders, whichever is earlier. The Competent Authority has now conveyed approval for the extension of additional charge of the post of Chairperson, Public Enterprises Selection Board (PESB) entrusted to Shri Ansuman Das, Member, PESB, till 18.08.2018 i.e., the date on which he completes his tenure as Member, PESB, or until further orders, whichever is earlier.

ASHWINI DATTATRAYA THAKRE
Deputy Secretary

New Delhi, the 7th August, 2018

No. 13017/32/2018-AIS-I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the State Government of Karnataka and the Ministry

of Home Affairs, the Central Government hereby transfers Ms. Akriti Sagar, IAS (KN: 2016) from Karnataka cadre to AGMUT cadre on grounds of marriage to Shri Sudhanshu, IPS (AGMUT:2016).

UDAI BHAN SINGH
Under Secretary

New Delhi, the 17th August, 2018

No.44011/14(s)/2015-Est (B) Consequent upon the completion of tenure of Shri Ansuman Das as Member, Public Sector Enterprises Board (PESB) on 18.08.2018, the Competent Authority has approved entrustment of additional charge of the post of Chairperson, PESB to Ms. Gauri Kumar, Member, PESB w.e.f. 19.08.2018 till 27.09.2018 i.e. the date on which she completes her tenure as Member, PESB or until further orders, whichever is earlier.

SMITA SARANGI
Deputy Secretary

New Delhi, the 20th August, 2018

No.14013/05/2016 - AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following member of the Indian Administrative Service of borne on the State Cadre of West Bengal in the Indian Administrative Service, with effect the date(s) shown against them:

S.NO.	Name of Officer(Shri/Smt)	Cadre	Date of Confirmation
1	Dibyendu Sarkar	2003	24.04.2015
2	Nitya Sundar Trivedi	2003	24.04.2015
3	Sudip Ghosh	2004	24.04.2015
4	Narayan Chandra Sarkar	2005	25.06.2016
5	Syed Sarwar Imam	2005	03.02.2016
6	Atonu Chatterjee	2006	19.09.2017
7	Debabrata Chattaraj	2006	19.09.2017
8	Narbu Wangi Bhutia	2006	19.09.2017
9	Shomit Ghosh	2007	19.09.2017
10	Debasis Guhathakurta	2007	19.09.2017
11	Ajay Bhattacharyya	2007	19.09.2017
12	Dipankar Sinha	2007	19.09.2017
13	Debashis Das	2007	19.09.2017
14	Prabhudutta D Pradhan	2007	19.09.2017

JYOTSNA GUPTA
Under Secretary

New Delhi, the 20th August, 2018

No. 14013/01/2018-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following member of the Indian Administrative Service of borne on the State Cadre of Bihar in the Indian Administrative Service, with effect the date(s) shown against them:

S.NO.	Name of Officer(Shri/Smt)	Cadre	Date of Confirmation
1	Shri Sanjay Dubey	2008	16.03.2008
2	Dr. Sanjay Sinha	2008	09.03.2008

JYOTSNA GUPTA
Under Secretary

New Delhi, the 24th August, 2018

F. No. 24012/1/2018-AIS-II.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Om Prakash Choudhary, IAS (CG:2005), a member of the Indian Administrative Service, borne on the cadre of Chhattisgarh, from the Indian Administrative Service with effect from the date of issue of the notification. The intervening period i.e. from 14/08/2018 to date of issue of the notification shall be treated as '*dies-non*'.

KHUSHBOO GOEL CHOWDHARY
Deputy Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 7th August, 2018

No. 22/PB-I/2018.—On attaining the age of superannuation, Sh. B.A. Sam Paul Jee (DOB: 16.07.1958), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B), retired from Government service in the afternoon of 31st July, 2018.

SUNILA KRISHNAN
Administrative Officer (PB-I)

No. 23/PB-I/2018.—On attaining the age of superannuation, Sh. Ernest Alexander Adams (DOB: 16.07.1958), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B), retired from Government service in the afternoon of 31st July, 2018.

SUNILA KRISHNAN
Administrative Officer (PB-I)

No. 24/PB-I/2018.—On attaining the age of superannuation, Ms. Aparna Kundu (DOB: 27.07.1958), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B), retired from Government service in the afternoon of 31st July, 2018.

SUNILA KRISHNAN
Administrative Officer (PB-I)

No. 25/PB-I/2018.—The Ministry of External Affairs regrets to announce the sad demise of Shri. Arun Kumar Saxena (DOB: 30.09.1958), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) on 23rd July, 2018. His name has, therefore been deleted from the rolls of Ministry.

SUNILA KRISHNAN
Administrative Officer (PB-I)

(PB-II SECTION)

New Delhi, the 13th August, 2018

No. Q/PB-II/6616/27/2013.—Consequent upon acceptance of his request for voluntary retirement under rule 48-A of CCS(Pension) Rules, Shri Vipin Narula, PS has retired from Government Service in the afternoon of 03rd August 2018.

JITENDRA KUMAR SINGH
Administrative Officer (PB-II)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES & CUSTOMS)
New Delhi, the 29th June, 2018
NOTIFICATION No. 24/2018
INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

F. No. C-50/30/2015-Ad. II.—The President is pleased to accept the technical resignation tendered by Shri Mohit Kumar, IRS(C&CE:2013) from the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise) with effect from 21st December, 2014.

S.A. ANSARI
Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 30th July, 2018

No. 13/2018 (A-19011/31/2015-E-I).—Consequent upon her attaining the age of superannuation Ms. Rita Teaotia, IAS (GJ: 81), Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry will retire from Government service with effect from 31-07-2018 (A/N).

G. B. UPADHYAY
Director

New Delhi, the 1st August, 2018

No. 14/2018 (A-19011/42/2015-E-I).—The President is pleased to appoint Dr. Anup Wadhawan, IAS (UK:1985) as Secretary in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry with effect from 01.08.2018 (F/N) and until further orders.

G. B. UPADHYAY
Director

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi, the 24th August, 2018

No. A-19011/01/2015-Estt. (part).—Consequent upon completion of his extended tenure of three years, Dr. Girish Sahni, Director General, Council of Scientific and Industrial Research(CSIR)-cum-Secretary, Department of Scientific and Industrial Research(DSIR) relinquished the charge of his duties and responsibilities of the post of Director General, Council of Scientific and Industrial Research-cum-Secretary, Department of Scientific and Industrial Research w.e.f. 23.08.2018(AN).

KULDIP KUMAR
Under Secretary

No. A-19011/01/2018-Estt. The President is pleased to assign the additional charge of the post of Director General, Council for Scientific and Industrial Research (CSIR)-cum-Secretary, Department of Scientific and Industrial Research(DSIR) to Shri Ashutosh Sharma, Secretary, Department of Science and Technology with effect from 24.08.2018, till appointment of a regular incumbent or until further orders, whichever is earlier.

KULDIP KUMAR
Under Secretary

ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Mumbai, the 16th August, 2018

No. AERB/Adm/I/77/2410.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers of the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) on promotion to the next higher grade shown against each in the same Board with effect from the forenoon of 01/07/2018 until further orders :

No.	Name of the Officer & Designation	Grade on Promotion	Pay Matrix
1	Shri Umesh S. Awasthi, Scientific Officer (E)	Scientific Officer (F)	Level 13 of Pay Matrix
2	Shri Sunil Shankarrao Pagar , Scientific Officer (E)	Scientific Officer (F)	Level 13 of Pay Matrix
3	Shri Nishant Kumar Sangam , Scientific Officer (E)	Scientific Officer (F)	Level 13 of Pay Matrix
4	Smt. Anuradha Vangala, Scientific Officer (E)	Scientific Officer (F)	Level 13 of Pay Matrix
5	Shri Rahul Porwal , Scientific Officer (E)	Scientific Officer (F)	Level 13 of Pay Matrix
6	Shri B.K. Singh, Scientific Officer (E)	Scientific Officer (F)	Level 13 of Pay Matrix
7	Shri Virendra Ravindranath Dhotre, Scientific Officer (E)	Scientific Officer (F)	Level 13 of Pay Matrix
8	Dr. S.P. Lakshmanan, Scientific Officer (E)	Scientific Officer (F)	Level 13 of Pay Matrix
9.	Shri Anuj Kumar Deo, Scientific Officer (E)	Scientific Officer (F)	Level 13 of Pay Matrix
10	Shri Milind Sahadev Mestry, Scientific Officer (E)	Scientific Officer (F)	Level 13 of Pay Matrix

SMT. SHEELA MOHAN
Chief Administrative Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY (VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE)

Kolkata, the 17th August, 2018

No. VECC/Prom/2017/2229.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (D) in the Level 11 of Pay Matrix of 7th CPC in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 1, 2017, until further orders:—

Sl.No.	Name	Present post	Level of Pay Matrix
1.	Shri Hitendra Yadav	Scientific Officer (C)	10

CVS SASTRY
Administrative Officer-III

(HEAVY WATER BOARD)

Mumbai, the 20th August, 2018

No. HWB/R/4(12)/2018/4924.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers Grade `G` (Level 13-A of Pay Matrix) of Heavy Water Board (CO) / Heavy Water Plant (Baroda/Hazira) as Scientific Officer/Engineer Grade `H` in the (Level 14 of Pay Matrix) with effect from the forenoon of the date mentioned against each in the same office/plant until further order :—

SR. No.	NAME S/SHRI	DIVISION/ UNIT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
1.	UDAY PRABHAKAR AWASARE	HWB (CO)	01.07.2018
2.	DEEPAYAN MAJUMDAR	HWB (CO)	01.07.2018
3.	SOMASUNDARAM THIRUVALLUVAN	HWP(BARODA)	01.07.2018
4.	RANGASAMY SUBRAMANIAM	HWP(HAZIRA)	09.07.2018

The above Officers relinquished the charge of lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

SAMSON VARGHESE
Chief Administrative Officer

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi, the 17th August, 2018

No. A-19011/1/2018-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Anant Kumar Singh, IAS (UP: 84) as Secretary in the Department of Land Resources with effect from the afternoon of 10.08.2018.

ASHOK KUMAR
Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 16th August, 2018

No. ERB-I/2016/2/64.—The President is pleased to appoint Shri N.Kashinath, IRSSE, as Director General(Signal & Telecom), Railway Board in the apex scale of Rs. 80,000 (pre-revised) with effect from afternoon of 10.08.2018.

RANJANESH SAHAI
Secretary, Railway Board

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 3rd August, 2018

F.No. 01/05/2013-DVC.—In pursuance of power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948 (XIV of 1948), the Central Government is pleased to appoint Ms. Archana Agrawal, IAS, Joint Secretary, Ministry of Power, Government of India as a representative from the Central Government on the Board of Damodar Valley Corporation with immediate effect until further orders.

ANOOP SINGH BISHT
Under Secretary

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

New Delhi, the 23rd August, 2018

No. A-11018/2/2017-Admin.—The President is pleased to appoint Shri Kapil Chaudhary, IOFS (2002) as Director in the Ministry of Drinking Water & Sanitation for a period of five years with effect from the forenoon of 01.08.2018 on Central Deputation under Central Staffing Scheme.

SUDHIR KUMAR SINHA
Under Secretary

No. A-11018/2/2015-Admin.—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Sharma, IES (1999) as Director in the Ministry of Drinking Water & Sanitation with effect from the forenoon of 24.07.2018.

SUDHIR KUMAR SINHA
Under Secretary

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 20th August, 2018

No. A-31011/03/2016-CLS-I(.).—On his regular promotion to Senior Administrative Grade of Central Labour Service the President is pleased to appoint Shri N.K. Mandal as Deputy Director General in the office of Directorate General of Labour Welfare in the Ministry of Labour & Employment in Level 14 of Pay Matrix (Rs.1,44,200-2,18,200/-) with effect from 23rd July 2018 (FN).

AJAY MALIK
Under Secretary